

विषय सूची		
-----------	--	--

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii

अध्याय-I: विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.2	1
बकाये राजस्व का विश्लेषण	1.3	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति	1.4	6
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.5	7
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	7
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	1.7	8
अध्याय-II: परिवहन विभाग		
अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं		
कर प्रशासन	2.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	15
झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली	2.3	16
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		
कर प्रशासन	2.4	77
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.5	77
थोक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनिवार्य न्यूनतम स्कंध के गैर-संधारण के लिए अर्थदण्ड का कम उद्ग्रहण	2.6	78
उत्पाद शुल्क राजस्व के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क का गैर-उद्ग्रहण	2.7	79
परिशिष्ट		
परिशिष्ट		83-94

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
I	2.3.3.2	गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों का नवीकरण	83
II	2.3.3.2	परिवहन वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों का नवीकरण	83
III	2.3.3.4	स्थानीय पंजीकरण चिन्ह	84
IV	2.3.3.5	परिवहन वाहनों के पंजीकृत लदान भार में संशोधन	84
V	2.3.3.6	वाहनों का गलत वर्गीकरण	84
VI	2.3.3.8	विनिर्माता/विक्रेता द्वारा वाहनों का प्रेषण	85
VII	2.3.4.1	मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा जारी दुरुस्ती प्रमाण पत्र	85
VIII	2.3.4.2	परिवहन वाहनों के दुरुस्ती प्रमाण पत्र का नवीकरण	86
IX	2.3.5.4	मार्गीय यात्री वाहन एवं शैक्षिक संस्थान बस अनुज्ञापत्रों का नवीकरण	86
X	2.3.7.2	परिवहन वाहनों से कर	87
XI	2.3.7.3	एकमुश्त कर	88
XII	2.3.7.4	पारस्परिक समझौतों के तहत चलने वाले वाहन	90
XIII	2.3.7.7	परिवहन वाहनों से अर्थदण्ड	91
XIV	2.3.7.9	संग्रहित राजस्व का हस्तांतरण	92
XV	2.3.8.2	सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम के तहत जुर्माना	94